



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 658]  
No. 658]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2008/अग्रहायण 28, 1930  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2008/AGRAHAYANA 28, 1930

संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

( डाक विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 864(अ).—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 74 के साथ पठित धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :—

- (1) इन नियमों को भारतीय डाकघर (छठा संशोधन) नियमावली, 2008 कहा जाएगा ।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में (इसमें इसके पश्चात् मूल नियम के तौर पर उल्लिखित)  
(क) नियम, 110 में, द्वितीय परंतुक के पश्चात् तथा टिप्पणी से पहले, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए,  
नामतः :—

“बशर्ते कि 5000 रु. से अनाधिक वाले मनीआर्डर, जिसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अर्थात् “ईएमओ” द्वारा संप्रेषित किया जाता है, को सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए साधारण मनीआर्डर माना जाएगा;”

(ख) नियम, 114 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः :—

“114. मनीआर्डर या ईएमओ का प्रेषक, महानिदेशक द्वारा यथानिर्धारित एवं मुहैया करवाए गए मनीआर्डर फार्म या ईएमओ फार्म में, महानिदेशक द्वारा अपेक्षित विवरण को नीली या काली स्याही से भरेगा। ऐसा विवरण अंग्रेजी या हिन्दी अथवा उस क्षेत्रीय भाषा में भरा जाएगा, जहां उस मनीआर्डर या ईएमओ को संप्रेषित किया गया है;”

(ग) नियम, 115 को उप-नियम (1) के तौर पर क्रमांकित किया जाएगा तदन्तर;

(घ) यथा क्रमांकित उप-नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम शामिल किया जाएगा, नामतः

(2) “एक से अनेक” को बुक किए गए ईएमओ के मामले में, अलग-अलग ईएमओ फार्म भरना अपेक्षित नहीं है, बल्कि सभी नामों की एक पूरी सूची तैयार करके भेजने वाला उसे प्रमाणित करके उसकी एक साफ्ट कापी साथ में संलग्न करेगा जिसे ईएमओ फार्म मान लिया जाएगा। भेजने वाला उस सूची की, प्रधान डाकघर के मामले में, हार्ड कापियों की दो प्रतियां तथा उप डाकघर के मामले में, हार्ड कापी की तीन प्रतियां प्रस्तुत करेगा जिस पर क्रम संख्या, पाने वाले का पूरा नाम व पता, पिन कोड सहित भुगतान करने वाला डाकघर, ईएमओ की राशि तथा कमीशन का उल्लेख होगा।

(ङ) नियम, 117 को उप-नियम (1) के तौर पर क्रमांकित किया जाएगा तदन्तर;

(च) यथा क्रमांकित उप-नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम शामिल किया जाए, नामतः :—

“(2) वाऊचर सहित पावती को भुगतान करने वाले डाकघर के मुख्य डाकघर में रखा जाएगा और मांगे जाने पर जारी करने वाले डाकघर को उसे भेज दिया जाएगा। यदि पाने वाला पावती का अनुरोध करता है, तो जारी करने वाला डाकघर भुगतान करने वाले डाकघर को लिखित में अनुरोध भेजेगा और तदुपरांत भुगतान करने वाला डाकघर डाक द्वारा प्रेषक को एक पावती भेजेगा :

बशर्ते कि जारी करने वाले डाकघर द्वारा प्रेषक के अनुरोध पर भुगतान का प्रमाणपत्र ही इसे जारी किया जाएगा;”

(छ) नियम, 119 में, उप-नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम शामिल किया जाए, नामतः :—

“(1ए) यदि किसी एक पाने वाले को बल्क में ईएमओ का भुगतान होना है तो ईएमओ फार्म तथा उसके पावती वाले हिस्से पर पाने वाले के हस्ताक्षर अलग-अलग ईएमओ पर लेना आवश्यक नहीं है।”

(ज) नियम, 123 को उप-नियम (1) के तौर पर क्रमांकित किया जाए तदन्तर;

(झ) यथा क्रमांकित उप-नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम शामिल किया जाए, नामतः :—

“(2) ईएमओ में पाने वाले के नाम में फेर बदल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

[फा. सं. 95-13/2003-एफएस (खण्ड II)]

वासुभिन्ना, उप महानिदेशक (वित्तीय सेवाएं)

**टिप्पणी :** दिनांक 1-1-1975 तक यथासंशोधित मुख्य नियम जो डाक-तार नियमावली खण्ड-1, विधायी अधिनियम, भाग-1, पांचवे संस्करण में प्रकाशित हो चुके हैं, और अंतिम बार सा.का.नि. 588(अ) दिनांक 11 अगस्त, 2008 के तहत इनमें संशोधन किया गया।

**टिप्पणी :** 01.01.1975 तक यथासंशोधित मूल नियम डाक एवं तार नियमावली खण्ड-1, विधायी अधिनियमन, भाग-1, पंचम संस्करण में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया है:-

1. सा.का.नि. 2888(अ) तारीख 19 दिसम्बर, 1975
2. सा.का.नि. 596(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 1975
3. सा.का.नि. 741(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1975
4. सा.का.नि. 472 (अ) तारीख 24 जनवरी, 1976
5. सा.का.नि. 93 (अ) तारीख 25 फरवरी, 1976
6. सा.का.नि. 811(अ) तारीख 31 मई, 1976
7. सा.का.नि. 943(अ) तारीख 21 जून, 1976
8. सा.का.नि. 135(अ) तारीख 7 जनवरी, 1978
9. सा.का.नि. 304(अ) तारीख 29 मई, 1978
10. सा.का.नि. 316(अ) तारीख 18 मई, 1979
11. सा.का.नि. 4118 (अ) तारीख 29 दिसम्बर, 1979
12. सा.का.नि. 1256(अ) तारीख 13 मई, 1980
13. सा.का.नि. 490(अ) तारीख 26 जून, 1980
14. सा.का.नि. 491(अ) तारीख 26 जून, 1980
15. सा.का.नि. 380 (अ) तारीख 5 जून, 1981
16. सा.का.नि. 409(अ) तारीख 26 सितम्बर, 1981
17. सा.का.नि. 59 (अ) तारीख 11 फरवरी, 1982
18. सा.का.नि. 417(अ) तारीख 22 मई, 1982
19. सा.का.नि. 411(अ) तारीख 13 मई, 1982
20. सा.का.नि. 520 (अ) तारीख 10 अगस्त, 1982
21. सा.का.नि. 33 (अ) तारीख 20 जनवरी, 1983
22. सा.का.नि. 49(अ) तारीख 20 फरवरी, 1983
23. सा.का.नि. 92 (अ) तारीख 21 फरवरी, 1983
24. सा.का.नि. 444(अ) तारीख 23 मई, 1983
25. सा.का.नि. 37(अ) तारीख 17 जनवरी, 1984
26. सा.का.नि. 1652 (अ) तारीख 19 मई, 1984
27. सा.का.नि. 637(अ) तारीख 16 अप्रैल, 1986
28. सा.का.नि. 329(अ) तारीख 3 मई, 1986
29. सा.का.नि. 461 (अ) तारीख 14 जून, 1986
30. सा.का.नि. 2420(अ) तारीख 28 जून, 1986
31. सा.का.नि. 436(अ) तारीख 24 जुलाई, 1986
32. सा.का.नि. 2460(अ) तारीख 24 जुलाई, 1986
33. सा.का.नि. 3677(अ) तारीख 25 अक्टूबर, 1986
34. सा.का.नि. 1333(अ) तारीख 29 दिसम्बर, 1986
35. सा.का.नि. 85(अ) तारीख 6 फरवरी, 1987
36. सा.का.नि. 548(अ) तारीख 28 फरवरी, 1987
37. सा.का.नि. 379(अ) तारीख 10 अप्रैल, 1987
38. सा.का.नि. 265(अ) तारीख 11 अप्रैल, 1987
39. सा.का.नि. 480 (अ) तारीख 29 अप्रैल, 1987
40. सा.का.नि. 531(अ) तारीख 27 मई, 1987
41. सा.का.नि. 438(अ) तारीख 6 जून, 1987
42. सा.का.नि. 632(अ) तारीख 27 अगस्त, 1987
43. सा.का.नि. 688(अ) तारीख 30 अगस्त, 1987

44. सा.का.नि. 807(अ) तारीख 2 सितम्बर, 1987
45. सा.का.नि. 829 (अ) तारीख 15 सितम्बर, 1987
46. सा.का.नि. 823(अ) तारीख 15 सितम्बर, 1987
47. सा.का.नि. 976 (अ) तारीख 9 नवम्बर, 1987
48. सा.का.नि. 1 (अ) तारीख 1 जनवरी, 1988
49. सा.का.नि. 2(अ) तारीख 1 जनवरी, 1988
50. सा.का.नि. 55(अ) तारीख 15 जनवरी, 1988
51. सा.का.नि. 212(अ) तारीख 26 फरवरी, 1988
52. सा.का.नि. 344 (अ) तारीख 4 मार्च, 1988
53. सा.का.नि. 388 (अ) तारीख 14 अप्रैल, 1988
54. सा.का.नि. 462(अ) तारीख 2 मई, 1988
55. सा.का.नि. 639(अ) तारीख 23 मई, 1988
56. सा.का.नि. 683 (अ) तारीख 7 जून, 1988
57. सा.का.नि. 624(अ) तारीख 29 जून, 1988
58. सा.का.नि. 633(अ) तारीख 1 जुलाई, 1988
59. सा.का.नि. 684 (अ) तारीख 8 जुलाई, 1988
60. सा.का.नि. 866(अ) तारीख 26 सितम्बर, 1988
61. सा.का.नि. 1022(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1988
62. सा.का.नि. 14(अ) तारीख 4 जनवरी, 1988
63. सा.का.नि. 68(अ) तारीख 10 जनवरी, 1989
64. सा.का.नि. 180(अ) तारीख 24 फरवरी, 1989
65. सा.का.नि. 223 (अ) तारीख 28 फरवरी, 1989
66. सा.का.नि. 180(अ) तारीख 1 मार्च, 1989
67. सा.का.नि. 314(अ) तारीख 1 मई, 1989
68. सा.का.नि. 435(अ) तारीख 9 जून, 1989
69. सा.का.नि. 478(अ) तारीख 24 जून, 1989
70. सा.का.नि. 639(अ) तारीख 26 अगस्त, 1989
71. सा.का.नि. 804(अ) तारीख 12 अक्टूबर, 1989
72. सा.का.नि. 821(अ) तारीख 16 अक्टूबर, 1989
73. सा.का.नि. 898(अ) तारीख 2 दिसम्बर, 1989
74. सा.का.नि. 965(अ) तारीख 12 दिसम्बर, 1989
75. सा.का.नि. 1077(अ) तारीख 29 दिसम्बर, 1989
76. सा.का.नि. 1078(अ) तारीख 29 दिसम्बर, 1989
77. सा.का.नि. 967(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 1989
78. सा.का.नि. 198(अ) तारीख 5 फरवरी, 1990
79. सा.का.नि. 100(अ) तारीख 1 मार्च, 1990
80. सा.का.नि. 197(अ) तारीख 5 मार्च, 1990
81. सा.का.नि. 312(अ) तारीख 5 अप्रैल, 1990
82. सा.का.नि. 358(अ) तारीख 30 अप्रैल, 1990
83. सा.का.नि. 379(अ) तारीख 11 मई, 1990
84. सा.का.नि. 544(अ) तारीख 5 जून, 1990
85. सा.का.नि. 545(अ) तारीख 5 जून, 1990
86. सा.का.नि. 783(अ) तारीख 13 जून, 1990
87. सा.का.नि. 68(अ) तारीख 10 अगस्त, 1990
88. सा.का.नि. 628(अ) तारीख 18 अगस्त, 1990
89. सा.का.नि. 671(अ) तारीख 31 अगस्त, 1990
90. सा.का.नि. 694(अ) तारीख 11 सितम्बर, 1990

91. सा.का.नि. 783(अ) तारीख 12 अक्टूबर, 1990
92. सा.का.नि. 622(अ) तारीख 20 सितम्बर, 1991
93. सा.का.नि. 178(अ) तारीख 6 अप्रैल, 1992
94. सा.का.नि. 79(अ) तारीख 4 जनवरी, 1993
95. सा.का.नि. 259(अ) तारीख 5 मार्च, 1993
96. सा.का.नि. 420(अ) तारीख 17 मई, 1993
97. सा.का.नि. 615(अ) तारीख 20 सितम्बर, 1993
98. सा.का.नि. 616(अ) तारीख 16 सितम्बर, 1993
99. सा.का.नि. 778(अ) तारीख 27 दिसम्बर, 1993
100. सा.का.नि. 43(अ) तारीख 21 जनवरी, 1994
101. सा.का.नि. 193(अ) तारीख 18 फरवरी, 1994
102. सा.का.नि. 152(अ) तारीख 26 मार्च, 1994
103. सा.का.नि. 484(अ) तारीख 2 जून, 1994
104. सा.का.नि. 502(अ) तारीख 8 जून, 1994
105. सा.का.नि. 793(अ) तारीख 7 नवम्बर, 1994
106. सा.का.नि. 836(अ) तारीख 5 दिसम्बर, 1994
107. सा.का.नि. 860(अ) तारीख 21 दिसम्बर, 1994
108. सा.का.नि. 873(अ) तारीख 21 दिसम्बर, 1994
109. सा.का.नि. 931(अ) तारीख 26 दिसम्बर, 1994
110. सा.का.नि. 121(अ) तारीख 24 फरवरी, 1995
111. सा.का.नि. 342(अ) तारीख 18 अप्रैल, 1995
112. सा.का.नि. 484(अ) तारीख 14 जून, 1995
113. सा.का.नि. 736(अ) तारीख 13 नवम्बर, 1995
114. सा.का.नि. 737(अ) तारीख 13 नवम्बर, 1995
115. सा.का.नि. 926(अ) तारीख 20 नवम्बर, 1995
116. सा.का.नि. 764(अ) तारीख 29 नवम्बर, 1995
117. सा.का.नि. 783(अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1995
118. सा.का.नि. 201(अ) तारीख 7 मई, 1996
119. सा.का.नि. 372(अ) तारीख 21 अगस्त, 1996
120. सा.का.नि. 27(अ) तारीख 18 सितम्बर, 1996
121. सा.का.नि. 517(अ) तारीख 6 नवम्बर, 1996
122. सा.का.नि. 573(अ) तारीख 18 दिसम्बर, 1996
123. सा.का.नि. 267(अ) तारीख 19 मई, 1997
124. सा.का.नि. 295(अ) तारीख 30 मई, 1997
125. सा.का.नि. 318(अ) तारीख 10 जून, 1997
126. सा.का.नि. 351(अ) तारीख 27 जून, 1997
127. सा.का.नि. 723 (अ) तारीख 26 दिसम्बर, 1997
128. सा.का.नि. 41(अ) तारीख 21 जनवरी, 1998
129. सा.का.नि. 42(अ) तारीख 21 जनवरी, 1998
130. सा.का.नि. 406(अ) तारीख 26 जुलाई, 1998
131. सा.का.नि. 503(अ) तारीख 19 अगस्त, 1998
132. सा.का.नि. 40(अ) तारीख 21 जनवरी, 1998
133. सा.का.नि. 46(अ) तारीख 22 जनवरी, 1999
134. सा.का.नि. 77(अ) तारीख 09 फरवरी, 1999
135. सा.का.नि. 345(अ) तारीख 13 मई, 1999
136. सा.का.नि. 357(अ) तारीख 27 अप्रैल, 2000
137. सा.का.नि. 672(अ) तारीख 25 अगस्त, 2000

138. सा.का.नि. 71(अ) तारीख 7 फरवरी, 2001
139. सा.का.नि. 387(अ) तारीख 24 मई, 2001
140. सा.का.नि. 7(अ) तारीख 3 जनवरी, 2002
141. सा.का.नि. 23(अ) तारीख 11 फरवरी, 2002
142. सा.का.नि. 366(अ) तारीख 14 मई, 2002
143. सा.का.नि. 381(अ) तारीख 24 मई, 2002
144. सा.का.नि. 612(अ) तारीख 2 सितम्बर, 2002
145. सा.का.नि. 637(अ) तारीख 11 सितम्बर, 2002
146. सा.का.नि. 705(अ) तारीख 4 सितम्बर, 2002
147. सा.का.नि. 514(अ) तारीख 10 अक्टूबर, 2004
148. सा.का.नि. 292(अ) तारीख 13 मई, 2005
149. सा.का.नि. 30(अ) तारीख 20 जनवरी, 2006
150. सा.का.नि. 466(अ) तारीख 8 अगस्त, 2006
151. सा.का.नि. 487(अ) तारीख 18 अगस्त, 2006
152. सा.का.नि. 663(अ) तारीख 25 अक्टूबर, 2006
153. सा.का.नि. 210(अ) तारीख 20 मार्च, 2007
154. सा.का.नि. 511(अ) तारीख 27 जुलाई, 2007
155. सा.का.नि. 532(अ) तारीख 03 अगस्त, 2007
156. सा.का.नि. 775(अ) तारीख 18 सितम्बर, 2007
157. सा.का.नि. 22(अ) तारीख 9 जनवरी, 2008
158. सा.का.नि. 59(अ) तारीख 25 जनवरी, 2008
159. सा.का.नि. 238(अ) तारीख 28 मार्च, 2008
160. सा.का.नि. 400(अ) तारीख 26 मई, 2008
161. सा.का.नि. 588(अ) तारीख 11 अगस्त, 2008

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2008

**G.S.R. 864(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 43 read with Section 74 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (6th Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Post Office Rules, 1933 (hereinafter referred to as the principal rules),—
  - (a) in rule 110, after the second proviso and before the Note, the following proviso shall be inserted, namely :—  
 'Provided also that, money order not exceeding Rs. 5000 transmitted electronically, that is to say by an "eMO", shall for all practical purposes be understood or treated as on ordinary money order.';
  - (b) for rule 114, the following rule shall be substituted, namely :—  
 "114. The remitter of a money order or eMO shall fill in blue or black ink on the money order form or as the case may be, on the eMO Form, prescribed and supplied by the Director General, such particulars as the Director General may require. Such particulars may be written in English or Hindi or in the regional language of the area in which the money order or the eMO is remitted.";
  - (c) rule 115 shall be numbered as sub-rule (1) thereof :—
  - (d) after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—  
 "(2) In case of eMO booked under 'One to Many', filling up of individual eMO Form shall not be required and list duly prepared and authenticated by the

remitter, accompanied by softcopy shall be treated as eMO Form. The remitter shall present the hardcopy of the list to the Post Office in duplicate in case of Head Offices and in triplicate in case of Sub Post Offices indicating serial number, complete name and address of the payee, office of payment with PIN Code, amount of eMO and Commission.”;

(e) rule 117 shall be numbered as sub-rule(1) thereof;

(f) after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2) The acknowledgement along with the voucher shall be kept in the Head Offices of office of payment and shall be sent to the office of issue on demand. If the remitter requests for an acknowledgement, the office of issue shall send a written communication to the office of payment for the same and thereafter the office of payment shall send the acknowledgment to the remitter by post:

Provided that a certificate of payment shall be issued by the office of issue on the request of the remitter.”;

(g) in Rule 119, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1A) In case of eMOs payable in bulk to a single payee, the printing of individual eMOs shall not be required for getting signature of the payee on the eMO form and its Acknowledgement portion.”;

(h) rule 123 shall be numbered as sub-rule (1) thereof;

(i) after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2) The alteration of payee's name shall not be permitted in the eMO.”.

[F. No. 95-13/2003-FS (Vol. II)]

VASUMITRA, Dy. Director General (Financial Services)

**Foot Note:-** The principal rules as amended upto 1-1-1975 have been published in the Post and Telegraphs Manual Volume I, Legislative Enactments, Part-I, Fifth Edition and was last amended vide notification number G.S.R. 588(E), dated the 11<sup>th</sup> August, 2008.

4447 GI/08-3

Note:—The principal rules as amended upto 1-1-1975 have been published in the Post and Telegraphs Manual Volume-I, Legislative Enactments, Part-I, Fifth Edition and subsequently amended by :—

1. G.S.R. 2888 (E), dated the 19th December, 1975
2. G.S.R. 596(E), dated the 30th December, 1975
3. G.S.R. 741 (E), dated the 31st December, 1975
4. G.S.R. 472 (E), dated the 24th January, 1976
5. G.S.R. 93 (E), dated the 25th February, 1976
6. G.S.R. 811 (E), dated the 31st May, 1976
7. G.S.R. 943(E), dated the 21st June, 1976
8. G.S.R. 135(E), dated the 7th January, 1978
9. G.S.R. 304(E), dated the 29th May, 1978
10. G.S.R. 316(E), dated the 18th May, 1979
11. G.S.R. 4118(E), dated the 29th December, 1979
12. G.S.R. 1256(E), dated the 13th May, 1980
13. G.S.R. 490(E), dated the 26th June, 1980
14. G.S.R. 491 (E), dated the 26th June, 1980
15. G.S.R. 380(E), dated the 5th June, 1981
16. G.S.R. 409(E), dated the 26th September, 1981
17. G.S.R. 59(E), dated the 11th February, 1982
18. G.S.R. 417(E), dated the 22nd May, 1982
19. G.S.R. 411(E), dated the 13th May, 1982
20. G.S.R. 520(E), dated the 10th August, 1982
21. G.S.R. 33(E), dated the 20th January, 1983
22. G.S.R. 49(E), dated the 20nd February, 1983
23. G.S.R. 92(E), dated the 21st March, 1983
24. G.S.R. 444(E), dated the 23rd March, 1983
25. G.S.R. 37(E), dated the 17th January, 1984
26. G.S.R. 1652(E), dated the 19th May, 1984
27. G.S.R. 637(E), dated the 6th April, 1986
28. G.S.R. 329(E), dated the 3rd May, 1986
29. G.S.R. 461(E), dated the 14th June, 1986
30. G.S.R. 2420(E), dated the 28th June, 1986
31. G.S.R. 436(E), dated the 24th July, 1986
32. G.S.R. 2460(E), dated the 24th July, 1986
33. G.S.R. 3677 (E) dated the 25th October, 1986
34. G.S.R. 1333(E), dated the 29th December, 1986
35. G.S.R. 85(E), dated the 6th February, 1987
36. G.S.R. 548(E), dated the 28th February, 1987
37. G.S.R. 379(E), dated the 10th April, 1987
38. G.S.R. 265(E), dated the 11th April, 1987
39. G.S.R. 480(E), dated the 29th April, 1987
40. G.S.R. 531(E), dated the 27th May, 1987
41. G.S.R. 438(E), dated the 6th June, 1987



42. G.S.R. 632(E), dated the 27th August, 1987
43. G.S.R. 688(E), dated the 30th August, 1987
44. G.S.R. 807(E), dated the 2nd September, 1987
45. G.S.R. 829(E), dated the 15th September, 1987
46. G.S.R. 823(E), dated the 15th September, 1987
47. G.S.R. 976(E), dated the 9th November, 1987
48. G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 1988
49. G.S.R. 2(E), dated the 1st January, 1988
50. G.S.R. 55 (E) dated the 15th January 1988
51. G.S.R. 212(E), dated the 26th February, 1988
52. G.S.R. 344(E), dated the 4th March, 1988
53. G.S.R. 388(E), dated the 14th April, 1988
54. G.S.R. 462(E), dated the 2nd May, 1988
55. G.S.R. 639(E), dated the 23rd May, 1988
56. G.S.R. 683(E), dated the 7th June, 1988
57. G.S.R. 624(E), dated the 29th June, 1988
58. G.S.R. 633(E), dated the 1st July, 1988
59. G.S.R. 684(E), dated the 8th July, 1988
60. G.S.R. 866(E), dated the 26th September, 1988
61. G.S.R. 1022(E), dated the 31st December, 1988
62. G.S.R. 14(E), dated the 4th January, 1988
63. G.S.R. 68(E), dated the 10th January, 1989
64. G.S.R. 180(E), dated the 24th February, 1989
65. G.S.R. 223(E), dated the 28th February, 1989
66. G.S.R. 180(E), dated the 1st March, 1989
67. G.S.R. 314(E), dated the 1st May, 1989
68. G.S.R. 435(E), dated the 9th June, 1989
69. G.S.R. 478(E), dated the 24th June, 1989
70. G.S.R. 639(E), dated the 26th August, 1989
71. G.S.R. 804 (E), dated the 12th October, 1989
72. G.S.R. 821(E), dated the 16th October, 1989
73. G.S.R. 898(E), dated the 2nd December, 1989
74. G.S.R. 965(E), dated the 12th December, 1989
75. G.S.R. 1077(E), dated the 29th December, 1989
76. G.S.R. 1078(E), dated the 29th December, 1989
77. G.S.R. 967(E), dated the 30th December, 1989
78. G.S.R. 198(E), dated the 5th February, 1990
79. G.S.R. 100(E), dated the 1st March, 1990
80. G.S.R. 197(E), dated the 5th March, 1990
81. G.S.R. 312(E), dated the 5th April, 1990
82. G.S.R. 358(E), dated the 30th April, 1990
83. G.S.R. 379(E), dated the 11th May, 1990
84. G.S.R. 544(E), dated the 5th June, 1990
85. G.S.R. 545(E), dated the 5th June, 1990
86. G.S.R. 783(E), dated the 13th June, 1990
87. G.S.R. 68(E), dated the 10th August, 1990
88. G.S.R. 628(E), dated the 18th August, 1990
89. G.S.R. 671(E), dated the 31st August, 1990
90. G.S.R. 694(E), dated the 11th September, 1990
91. G.S.R. 783(E), dated the 12th October, 1990
92. G.S.R. 622(E), dated the 20th September, 1991
93. G.S.R. 178(E), dated the 6th April, 1992
94. G.S.R. 79(E), dated the 4th January, 1993
95. G.S.R. 259(E), dated the 5th March, 1993
96. G.S.R. 420(E), dated the 17th May, 1993
97. G.S.R. 615(E), dated the 20th September, 1993
98. G.S.R. 616(E), dated the 16th September, 1993
99. G.S.R. 778(E), dated the 27th December, 1993
100. G.S.R. 43(E), dated the 21st January, 1994
101. G.S.R. 193(E), dated the 18th February, 1994
102. G.S.R. 152(E), dated the 26th March, 1994
103. G.S.R. 484(E), dated the 2nd June, 1994
104. G.S.R. 502(E), dated the 8th June, 1994
105. G.S.R. 793(E), dated the 7th November, 1994
106. G.S.R. 836(E), dated the 5th December, 1994
107. G.S.R. 860(E), dated the 21st December, 1994
108. G.S.R. 873(E), dated the 21st December, 1994
109. G.S.R. 931(E), dated the 26th December, 1994
110. G.S.R. 121(E), dated the 24th February, 1995
111. G.S.R. 342(E), dated the 18th April, 1995
112. G.S.R. 484(E), dated the 14th June, 1995
113. G.S.R. 736(E), dated the 13th November, 1995
114. G.S.R. 737(E), dated the 13th November, 1995
115. G.S.R. 926(E), dated the 20th November, 1995
116. G.S.R. 764(E), dated the 29th November, 1995
117. G.S.R. 783(E), dated the 7th December, 1995
118. G.S.R. 201(E), dated the 7th May, 1996
119. G.S.R. 372(E), dated the 21st August, 1996
120. G.S.R. 27(E), dated the 18th September, 1996
121. G.S.R. 517(E), dated the 6th November, 1996
122. G.S.R. 573(E), dated the 18th December, 1996
123. G.S.R. 267(E), dated the 19th May, 1997
124. G.S.R. 295(E), dated the 30th May, 1997
125. G.S.R. 318(E), dated the 10th June, 1997
126. G.S.R. 351(E), dated the 27th June, 1997
127. G.S.R. 723(E), dated the 26th December, 1997
128. G.S.R. 41(E), dated the 21st January, 1998
129. G.S.R. 42(E), dated the 21st January, 1998
130. G.S.R. 406(E), dated the 26th July, 1998
131. G.S.R. 503(E), dated the 19th August, 1998

132. G.S.R. 40(E), dated the 21st January, 1998
133. G.S.R. 46(E), dated the 22nd January, 1999
134. G.S.R. 77(E), dated the 9th February, 1999
135. G.S.R. 345(E), dated the 13th May, 1999
136. G.S.R. 357(E), dated the 27th April, 2000
137. G.S.R. 672(E), dated the 25th August, 2000
138. G.S.R. 71(E), dated the 7th February, 2001
139. G.S.R. 387(E), dated the 24th May, 2001
140. G.S.R. 7(E), dated the 3rd January, 2002
141. G.S.R. 23(E), dated the 11th January, 2002
142. G.S.R. 366(E), dated the 14th May, 2002
143. G.S.R. 381(E), dated the 24th May, 2002
144. G.S.R. 612(E), dated the 2nd September, 2002
145. G.S.R. 637(E), dated the 11th September, 2002
146. G.S.R. 705(E), dated the 4th September, 2002
147. G.S.R. 514(E), dated the 10th October, 2003
148. G.S.R. 292(E), dated the 13th May, 2005
149. G.S.R. 30(E), dated the 20th January, 2006
150. G.S.R. 466(E), dated the 8th August, 2006
151. G.S.R. 487(E), dated the 18th August, 2006
152. G.S.R. 663(E), dated the 25th October, 2006
153. G.S.R. 210(E), dated the 20th March, 2007
154. G.S.R. 511(E), dated the 27th July, 2007
155. G.S.R. 532(E), dated the, 3rd August, 2007
156. G.S.R. 775(E), dated the 18th September, 2007
157. G.S.R. 22(E), dated the 9th January, 2008
158. G.S.R. 59(E), dated the 25th January, 2008
159. G.S.R. 238 (E), dated the 28th March, 2008.
160. G. S.R. 400(E) dated the 26th May, 2008
161. G.S.R. 588(E), dated the 11th August, 2008.